

अथ द्वितीयोऽध्यायः

सञ्जय उवाच

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् ।  
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥

संजय बोले—उस प्रकार करुणासे व्याप्त और  
आँसुओंसे पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रोंवाले शोकयुक्त  
उस अर्जुनके प्रति भगवान् मधुसूदनने यह वचन  
कहा ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।  
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥

श्रीभगवान् बोले—हे अर्जुन ! तुझे इस असमयमें  
यह मोह किस हेतुसे प्राप्त हुआ ? क्योंकि न तो  
यह श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा आचरित है, न स्वर्गको देनेवाला  
है और न कीर्तिको करनेवाला ही है ॥ २ ॥

क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वाद्युपपद्यते ।  
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोन्तिष्ठ परन्तप ॥

इसलिये हे अर्जुन ! नपुंसकताको मत प्राप्त हो,  
तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती । हे परंतप !  
हृदयकी तुच्छ दुर्बलताको त्यागकर युद्धके लिये  
खड़ा हो जा ॥ ३ ॥

अर्जुन उवाच

कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदनं ।  
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदनं ॥

अर्जुन बोले—हे मधुसूदन ! मैं रणभूमिमें किस प्रकार बाणोंसे भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यके विरुद्ध लड़ेँगा ? क्योंकि हे अरिसूदन ! वे दोनों ही पूजनीय हैं ॥ ४ ॥

गुरुनहत्वा हि महानुभावा-  
ज्ञेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।  
हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव  
भुञ्जीय भोगान्तर्धिरप्रदिग्धान् ॥

इसलिये इन महानुभाव गुरुजनोंको न मारकर मैं इस लोकमें भिक्षाका अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ; क्योंकि गुरुजनोंको मारकर भी इस लोकमें रुधिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोगोंको ही तो भोगूँगा ॥ ५ ॥

न चैतद्विद्वः कतरन्नो गरीयो-  
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।  
यानेव हत्वा न जिजीविषाम-  
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥

हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिये युद्ध करना और न करना—इन दोनोंमेंसे कौन-सा श्रेष्ठ

है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे मुकाबलेमें खड़े हैं ॥ ६ ॥

**कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः**

**पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेताः ।**

**यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे**

**शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥**

इसलिये कायरतारूप दोषसे उपहत हुए स्वभाववाला तथा धर्मके विषयमें मोहितचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये कहिये; क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये ॥ ७ ॥

**न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या-**

**द्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।**

**अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं-**

**राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥**

क्योंकि भूमिमें निष्कण्टक, धन-धान्यसम्पन्न राज्यको और देवताओंके स्वामीपनेको प्राप्त होकर भी मैं उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो मेरी इन्द्रियोंके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥

### सञ्जय उवाच

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप ।  
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ॥

संजय बोले—हे राजन् ! निद्राको जीतनेवाले अर्जुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्दभगवान्‌से ‘युद्ध नहीं करूँगा’ यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये ॥ ९ ॥

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ।  
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥

हे भरतवंशी धृतराष्ट्र ! अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराज दोनों सेनाओंके बीचमें शोक करते हुए उस अर्जुनको हँसते हुए-से यह वचन बोले ॥ १० ॥

### श्रीभगवानुवाच

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ।  
गतासूनगतासूनश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥

श्रीभगवान् बोले—हे अर्जुन ! तू न शोक करनेयोग्य मनुष्योंके लिये शोक करता है और पण्डितोंके-से वचनोंको कहता है; परंतु जिनके प्राण चले गये हैं, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं उनके लिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते ॥ ११ ॥

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।  
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥

न तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालमें नहीं था,  
तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे और न  
ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे ॥ १२ ॥  
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।  
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥

जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी  
और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी  
प्राप्ति होती है; उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं  
होता ॥ १३ ॥

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णासुखदुःखदाः ।  
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥

हे कुन्तीपुत्र! सर्दी-गर्मी और सुख-दुःखको  
देनेवाले इन्द्रिय और विषयोंके संयोग तो उत्पत्ति-  
विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिये हे भारत !  
उनको तू सहन कर ॥ १४ ॥

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।  
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥  
क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सुखको समान

समझनेवाले जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और विषयोंके संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्षके योग्य होता है ॥ १५ ॥

**नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।  
उभयोरपि दृष्टेऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥**

असत् वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत् का अभाव नहीं है । इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व तत्त्वज्ञानी पुरुषोंद्वारा देखा गया है ॥ १६ ॥

**अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।  
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुर्मर्हति ॥**

नाशरहित तो तू उसको जान, जिससे यह सम्पूर्ण जगत्—दृश्यवर्ग व्याप्त है । इस अविनाशीका विनाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है ॥ १७ ॥

**अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।  
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥**

इस नाशरहित, अप्रमेय, नित्यस्वरूप जीवात्माके ये सब शरीर नाशवान् कहे गये हैं । इसलिये हे भरतवंशी अर्जुन ! तू युद्ध कर ॥ १८ ॥

**य एनं वेत्ति हन्तारं यश्छैनं मन्यते हतम् ।  
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥**

जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथा

जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको मारता है और न किसीके द्वारा मारा जाता है ॥ १९ ॥

न जायते म्रियते वा कदाचि-  
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।  
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो-  
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥

यह आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला ही है; क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ॥ २० ॥

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।  
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥

हे पृथापुत्र अर्जुन ! जो पुरुष इस आत्माको नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है ? ॥ २१ ॥

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय  
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।  
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-  
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको त्यागकर दूसरे नये वस्त्रोंको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है ॥ २२ ॥  
 नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।  
 न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥

इस आत्माको शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता ॥ २३ ॥  
 अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।  
 नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥

क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निःसन्देह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहनेवाला और सनातन है ॥ २४ ॥

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।  
 तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥

यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है । इससे हे अर्जुन ! इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर तू शोक करनेको योग्य नहीं है अर्थात् तुझे शोक करना उचित नहीं है ॥ २५ ॥

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।  
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ॥

किन्तु यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाला  
तथा सदा मरनेवाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो !  
तू इस प्रकार शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २६ ॥  
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।  
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥

क्योंकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे हुएकी  
मृत्यु निश्चित है और मेरे हुएका जन्म निश्चित है ।  
इससे भी इस बिना उपायवाले विषयमें तू शोक  
करनेको योग्य नहीं है ॥ २७ ॥

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।  
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥

हे अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट  
थे और मरनेके बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं,  
केवल बीचमें ही प्रकट हैं; फिर ऐसी स्थितिमें क्या  
शोक करना है ? ॥ २८ ॥

आश्र्यवत्पश्यति कश्छिदेन-  
माश्र्यवद्वदति तथैव चान्यः ।  
आश्र्यवच्चैनमन्यः शृणोति  
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्छित् ॥

कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी भाँति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्त्वका आश्चर्यकी भाँति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यकी भाँति सुनता है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता ॥ २९ ॥

**देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।  
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥**

हे अर्जुन ! यह आत्मा सबके शरीरोंमें सदा ही अवध्य\* है । इस कारण सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये तू शोक करनेके योग्य नहीं है ॥ ३० ॥

**स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ।  
धर्म्याद्विद्य युद्धाच्छ्रेयोऽन्यतक्षत्रियस्य न विद्यते ॥**

तथा अपने धर्मको देखकर भी तू भय करनेयोग्य नहीं है अर्थात् तुझे भय नहीं करना चाहिये; क्योंकि क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है ॥ ३१ ॥

**यदृच्छ्या चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।  
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥**

हे पार्थ ! अपने-आप प्राप्त हुए और खुले हुए

---

\* जिसका वध नहीं किया जा सके ।

स्वर्गके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्  
क्षत्रियलोग ही पाते हैं ॥ ३२ ॥

अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ।  
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्यसि ॥

किन्तु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा  
तो स्वधर्म और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त  
होगा ॥ ३३ ॥

अकीर्तिं चापि भूतानि  
कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।  
सम्भावितस्य चाकीर्ति-  
मरणादतिरिच्यते ॥

तथा सब लोग तेरी बहुत कालतक रहनेवाली  
अपकीर्तिका भी कथन करेंगे और माननीय पुरुषके  
लिये अपकीर्ति मरणसे भी बढ़कर है ॥ ३४ ॥

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।  
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥

और जिनकी दृष्टिमें तू पहले बहुत सम्मानित  
होकर अब लघुताको प्राप्त होगा, वे महारथीलोग  
तुझे भयके कारण युद्धसे हटा हुआ मानेंगे ॥ ३५ ॥  
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः ।  
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥

तेरे वैरीलोग तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते हुए  
तुझे बहुत-से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे;  
उससे अधिक दुःख और क्या होगा ? ॥ ३६ ॥

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।  
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥

या तो तू युद्धमें मारा जाकर स्वर्गको प्राप्त होगा  
अथवा संग्राममें जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा ।  
इस कारण हे अर्जुन ! तू युद्धके लिये निश्चय करके  
खड़ा हो जा ॥ ३७ ॥

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।  
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥

जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान  
समझकर, उसके बाद युद्धके लिये तैयार हो जा; इस  
प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ॥ ३८ ॥  
एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।  
बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥

हे पार्थ ! यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके<sup>१</sup>  
विषयमें कही गयी और अब तू इसको कर्मयोगके<sup>२</sup>  
विषयमें सुन—जिस बुद्धिसे युक्त हुआ तू कर्मोंके

---

१-२ अध्याय ३ श्लोक ३ की टिप्पणीमें इसका विस्तार  
देखना चाहिये ।

बन्धनको भलीभाँति त्याग देगा अर्थात् सर्वथा  
नष्ट कर डालेगा ॥ ३९ ॥

**नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।**  
**स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥**

इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात् बीजका नाश  
नहीं है और उलटा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि  
इस कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जन्म-  
मृत्युरूप महान् भयसे रक्षा कर लेता है ॥ ४० ॥

**व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।**  
**बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्योऽव्यवसायिनाम् ॥**

हे अर्जुन ! इस कर्मयोगमें निश्चयात्मिका बुद्धि  
एक ही होती है; किन्तु अस्थिर विचारवाले विवेकहीन  
सकाम मनुष्योंकी बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदोंवाली  
और अनन्त होती हैं ॥ ४१ ॥

**यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।**  
**वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥**  
**कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।**  
**क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥**  
**भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।**  
**व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥**

हे अर्जुन ! जो भोगोंमें तन्मय हो रहे हैं, जो

कर्मफलके प्रशंसक वेदवाक्योंमें ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धिमें स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्गसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है—ऐसा कहनेवाले हैं, वे अविवेकीजन इस प्रकारकी जिस पुष्पित अर्थात् दिखाऊ शोभायुक्त वाणीको कहा करते हैं जो कि जन्मरूप कर्मफल देनेवाली एवं भोग तथा ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकारकी बहुत-सी क्रियाओंका वर्णन करनेवाली है, उस वाणीद्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं; उन पुरुषोंकी परमात्मामें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती ॥ ४२—४४ ॥

**त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।  
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥**

हे अर्जुन ! वेद उपर्युक्त प्रकारसे तीनों गुणोंके कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोंका प्रतिपादन करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगों एवं उनके साधनोंमें आसक्तिहीन, हर्ष-शोकादि द्वन्द्वोंसे रहित, नित्यवस्तु परमात्मामें स्थित, योग<sup>१</sup>-क्षेमको<sup>२</sup>

१. अप्राप्तिकी प्राप्तिका नाम ‘योग’ है।

२. प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम ‘क्षेम’ है।

न चाहनेवाला और स्वाधीन अन्तः-करणवाला हो ॥ ४५ ॥

**यावानर्थं उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके ।  
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥**

सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त हो जानेपर छोटे जलाशयमें मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मको तत्त्वसे जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रह जाता है ॥ ४६ ॥

**कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।  
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥**

तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, उसके फलोंमें कभी नहीं । इसलिये तू कर्मोंके फलका हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो ॥ ४७ ॥

**योगस्थः कुरु कर्मणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।  
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥**

हे धनञ्जय ! तू आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धिमें समान बुद्धिवाला होकर योगमें स्थित हुआ कर्तव्यकर्मोंको कर, समत्व\* ही योग कहलाता है ॥ ४८ ॥

---

\* जो कुछ भी कर्म किया जाय उसके पूर्ण होने और न होनेमें तथा उसके फलमें समभाव रहनेका नाम ‘समत्व’ है।

**दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्वनञ्जय।  
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः ॥**

इस समत्वरूप बुद्धियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त ही निम्न श्रेणीका है। इसलिये हे धनञ्जय! तू समबुद्धिमें ही रक्षाका उपाय ढूँढ़ अर्थात् बुद्धियोगका ही आश्रय ग्रहण कर; क्योंकि फलके हेतु बननेवाले अत्यन्त दीन हैं ॥ ४९ ॥

**बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते।  
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥**

समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनोंको इसी लोकमें त्याग देता है अर्थात् उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्वरूप योगमें लग जा; यह समत्वरूप योग ही कर्मोंमें कुशलता है अर्थात् कर्मबन्धनसे छूटनेका उपाय है ॥ ५० ॥

**कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः।  
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥**

क्योंकि समबुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो निर्विकार परमपदको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ५१ ॥ यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥

जिस कालमें तेरी बुद्धि मोहरूप दलदलको  
भलीभाँति पार कर जायगी, उस समय तू सुने हुए  
और सुननेमें आनेवाले इस लोक और परलोकसम्बन्धी  
सभी भोगोंसे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा ॥ ५२ ॥  
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।  
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्यसि ॥

भाँति-भाँतिके वचनोंको सुननेसे विचलित हुई  
तेरी बुद्धि जब परमात्मामें अचल और स्थिर ठहर  
जायगी, तब तू योगको प्राप्त हो जायगा अर्थात्  
तेरा परमात्मासे नित्य संयोग हो जायगा ॥ ५३ ॥

### अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।  
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् ॥

अर्जुन बोले—हे केशव ! समाधिमें स्थित  
परमात्माको प्राप्त हुए स्थिरबुद्धि पुरुषका क्या  
लक्षण है ? वह स्थिरबुद्धि पुरुष कैसे बोलता है,  
कैसे बैठता है और कैसे चलता है ? ॥ ५४ ॥

### श्रीभगवानुवाच

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्यार्थं मनोगतान् ।  
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

श्रीभगवान् बोले—हे अर्जुन ! जिस कालमें यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको भलीभाँति त्याग देता है और आत्मासे आत्मामें ही संतुष्ट रहता है, उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥ ५५ ॥  
 दुःखेष्वनुद्विग्रमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।  
 वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥

दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्वेग नहीं होता, सुखोंकी प्राप्तिमें जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गये हैं, ऐसा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता है ॥ ५६ ॥  
 यः सर्वत्रानभिस्त्वेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।  
 नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ या अशुभ वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर है ॥ ५७ ॥  
 यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।  
 इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

और कछुवा सब ओरसे अपने अंगोंको जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियोंके विषयोंसे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे हटा लेता है, तब

उसकी बुद्धि स्थिर है (ऐसा समझना चाहिये) ॥ ५८ ॥  
 विषया विनिवर्तने निराहारस्य देहिनः ।  
 रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥

इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको ग्रहण न करनेवाले  
 पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं,  
 परन्तु उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती ।  
 इस स्थितप्रज्ञ पुरुषकी तो आसक्ति भी परमात्माका  
 साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है ॥ ५९ ॥  
 यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।  
 इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥

हे अर्जुन ! आसक्तिका नाश न होनेके कारण  
 ये प्रमथनस्वभाववाली इन्द्रियाँ यत्न करते हुए बुद्धिमान्  
 पुरुषके मनको भी बलात् हर लेती हैं ॥ ६० ॥  
 तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।  
 वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

इसलिये साधकको चाहिये कि वह उन सम्पूर्ण  
 इन्द्रियोंको वशमें करके समाहितचित्त हुआ मेरे परायण  
 होकर ध्यानमें बैठे, क्योंकि जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ  
 वशमें होती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर हो जाती है ॥ ६१ ॥  
 ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।  
 सङ्गात्सञ्चायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥

विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें  
आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी  
कामना उत्पन्न होती है और कामनामें विघ्न  
पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है ॥ ६२ ॥

**क्रोधाद्ववति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।  
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥**

क्रोधसे अत्यन्त मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है,  
मूढ़भावसे स्मृतिमें भ्रम हो जाता है, स्मृतिमें भ्रम  
हो जानेसे बुद्धि अर्थात् ज्ञानशक्तिका नाश हो  
जाता है और बुद्धिका नाश हो जानेसे यह पुरुष  
अपनी स्थितिसे गिर जाता है ॥ ६३ ॥

**रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।  
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥**

परंतु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला  
साधक अपने वशमें की हुई, राग-द्वेषसे रहित  
इन्द्रियोंद्वारा विषयोंमें विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी  
प्रसन्नताको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥

**प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।  
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥**

अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण  
दुःखोंका अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्तवाले

कर्मयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर एक परमात्मामें ही भलीभाँति स्थिर हो जाती है ॥ ६५ ॥  
 नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।  
 न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥

न जीते हुए मन और इन्द्रियोंवाले पुरुषमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्यके अन्तःकरणमें भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती और शान्तिरहित मनुष्यको सुख कैसे मिल सकता है ? ॥ ६६ ॥

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।  
 तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥

क्योंकि जैसे जलमें चलनेवाली नावको वायु हर लेती है, वैसे ही विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे मन जिस इन्द्रियके साथ रहता है वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको हर लेती है ॥ ६७ ॥  
 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।  
 इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

इसलिये हे महाबाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयोंसे सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६८ ॥

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।  
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रिके समान है,  
उस नित्य ज्ञानस्वरूप परमानन्दकी प्राप्तिमें स्थितप्रज्ञ  
योगी जागता है और जिस नाशवान् सांसारिक  
सुखकी प्राप्तिमें सब प्राणी जागते हैं, परमात्माके  
तत्त्वको जाननेवाले मुनिके लिये वह रात्रिके  
समान है ॥ ६९ ॥

**आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ-**

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥

जैसे नाना नदियोंके जल सब ओरसे परिपूर्ण,  
अचल प्रतिष्ठावाले समुद्रमें उसको विचलित न  
करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस  
स्थितप्रज्ञ पुरुषमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न  
किये बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परमशान्तिको  
प्राप्त होता है, भोगोंको चाहनेवाला नहीं ॥ ७० ॥

**विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ।**  
**निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥**

जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममतारहित,

अहंकाररहित और स्पृहारहित हुआ विचरता है,  
वही शान्तिको प्राप्त होता है अर्थात् वह शान्तिको  
प्राप्त है ॥ ७१ ॥

**एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।**  
**स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥**

हे अर्जुन ! यह ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकी  
स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित  
नहीं होता और अन्तकालमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें  
स्थित होकर ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है ॥ ७२ ॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म-  
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे  
साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥